

Form No. III
फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, श्री डूंगरगढ
पेमा पत्नी पन्नाराम जाट निवासी उदरारार बनाम चुन्नी यगैरहा यगैरहा
मुकदमा अन्तर्गत धारा 53,188,88 आरटीए, 138 एल.आर.एक्ट/69 मुकदमा नम्बर
सन् 2013

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण गय इन्शियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तारीख में जारी हुकम
31.5.13	आज यह वाद पेमा ने जरिये श्री राजूराम बाना अभिभाषक के मार्फत पेश किया । वाद पेश करने से पूर्व वकील वादी को प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी पर सुना गया । वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है । वाद दर्ज रजिस्टर हो । प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 22.7.2013 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ	
13-9-2013	दिनांक 22.7.2013 को सापूडि अवकाश लेने के कारण पत्रावली अर्थात् फरीकेन उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी 14.11.2013 को पेश हों। प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 6 की तरफ से श्री ओम प्रकाश पंचार Adv द्वारा अदालत नामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगणों की तलबी उनको पेश करें। -1।	
14.11.13	पत्रावली पेश हुई। तलबी फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 की तरफ से जबाब दया पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी संख्या 2 एवं गौठ प्रतिवादी संख्या 1, 2 जरिये Req. MD आयन्दा दिनांक 22.1.2014 को पेश हो। -1।	
22.1.14	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 व 6 को जबाब पूर्य में पेश हो चुका है। वादी की तरफ से श्री केशव चन्द्र Adv ने अधिकार पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी संख्या 2 व गौठ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की Req MD पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी आयन्दा दिनांक 5.3.2014 को पेश हो। -1।	
5-3-2014	पत्रावली पेश हुई। वकील..... वकील फरीकेन उपस्थित। तलबी..... हेतु समय चाहा! समय विश्व जाकर पत्रावली वास्ते तलबी 1, 2 Req MD आयन्दा दिनांक 16.4.2014 को पेश हों। SDO sb अन्य कार्य में व्यस्त है R. शेट्ट 16/4/2014	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण मय इन्शियल जज
16.4.2014	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। SDO Sb चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते तलबी-2 एवं गौण प्रतिवादी 1-2 आयन्दा दिनांक 11.6.2014 को पेश हो। 2036
11.6.14	पत्रावली पेश हुई। कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते तलबी आयन्दा दिनांक 16.7.14 को पेश हो। 2036
16.7.14	पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते तलबी आयन्दा दिनांक 25.8.2014 को पेश हो। 2036
25.8.2014	पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते तलबी आयन्दा दिनांक 15.10.2014 को पेश हो। 2036
15.10.2014	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वादी की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि प्रतिवादी संख्या 2 का शर्जवास हो चुका है अतः वादी प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम तथा गौण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी आयन्दा दिनांक 19.11.2014 को पेश हो। 2036
19.11.2014	पत्रावली पेश हुई। वकालत वकील फरीकेन उपस्थित। तलबी हेतु समय चाहिए। संभव दिनांक जाकर पत्रावली वास्ते तलबी/कायम मुकाम आयन्दा दिनांक 19.11.2014 को पेश हो। SDO Sb कैम्प में व्यस्त हो। 2036
19.11.2014	पत्रावली पेश हुई। वकालत वकील फरीकेन उपस्थित। तलबी/कायम मुकाम हेतु समय चाहिए। संभव दिनांक जाकर पत्रावली वास्ते तलबी 1-2 कायम मुकाम-2 आयन्दा दिनांक 16.12.2014 को पेश हो। 2036

तारीख हुकम	हुकम या कार्याही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तारीख में जारी हुकम
16.12.14	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। प्रतिवादी की तरफ से प्रा.पत्र 0-22 R-4 व धारा 19 CPC का पेश हुआ जिसकी प्रति वादी को दिलाई गई। पत्रावली वास्तु में प्रा.पत्र आयदा दिनांक 12.1.2015 को पेश है।</p>	
12.1.2015	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। वादी की तरफ से संशोधित वाद शीर्षक पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्तु वध प्रा.पत्र 0-22 R-4 व धारा 151 CPC आयदा दिनांक 23.2.2015 को पेश है।</p>	
23.2.15	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूल..... वकूल फरीकन उपस्थित !..... हेतु रामय चाहा! समय दिया जाकर पत्रावली वास्तु..... आयदा दिनांक 25.3.2015 को पेश है। SDOsb मुमता पर है।</p>	
25/3/2016	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। SDO Sb..... होने के कारण पत्रावली वास्तु..... हेतु दिनांक 5.5.2016 को पेश है।</p>	
5/5/2016	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। SDO Sb..... होने के कारण पत्रावली वास्तु..... हेतु दिनांक 21.7.2016 को पेश है।</p>	
21/7/2016	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। SDO Sb..... होने के कारण पत्रावली वास्तु..... हेतु दिनांक 8/8/2016 को पेश है।</p>	
8/8/2016	<p>पत्रावली पेश हुई। उपस्थित उपस्थित। वध हेतु समय चाहे ही पत्रावली वास्तु आयदा दिनांक 6/10/2016 को पेश है।</p>	

6/10/2016 पत्रावली पेश हुई। वकील..... वकील फरीकन
 उपस्थित !..... हेतु समय चाहा! समय
 जाकर पत्रावली वास्ते.....
 दिनांक 14/10/2016 को पेश हों।

9

14/10/2016

पत्रावली पेच डर्म | 8मं प्रक उपस्थित |
 वकिल प्रतिवादी ने प्रथम प्र आदेश 022
 मिश्रम 9 प्रथम 151 प्र पेच किम प्र शर्त
 पत्रावली रहे। पत्रावली वास्ते प्रथम प्र
 प्र आदेश दिनांक 7/11/2016 को पेश हों।

7/11/2016

पत्रावली पेश हुई। वकील..... वकील फरीकन
 उपस्थित !..... हेतु समय चाहा! समय
 जाकर.....
 दिनांक 20/11/2017 को पेश हों।

9

20/11/2017

पत्रावली पेश हुई। वकील..... वकील फरीकन
 उपस्थित !..... हेतु समय चाहा! समय
 जाकर.....
 दिनांक 15/12/2017 को पेश हों।

9

15/12/2017

पत्रावली पेश हुई। वकील..... वकील फरीकन
 उपस्थित !..... हेतु समय चाहा! समय
 जाकर.....
 दिनांक 23/3/2017 को पेश हों।

9

23/3/17

पत्रावली पेश हुई। वकील..... वकील फरीकन
 उपस्थित !..... हेतु समय चाहा! समय
 जाकर.....
 दिनांक 6/4/17 को पेश हों।

9
रीडर

6/4/17

पत्रावली पेश हुई। वकील..... वकील फरीकन
 उपस्थित !..... हेतु समय चाहा! समय
 जाकर.....
 दिनांक 15/5/17 को पेश हों।

9
रीडर

15/5/17 पत्रावली पेश हुई। बकूलाय उपस्थित।
 SDO Sb.....~~उपस्थित~~.....श्रीने के
 कारण पत्रावली वास्ते.....~~उपस्थित~~.....हेतु
 दिनांक...~~24/5/17~~...को पेश हों।
 रीडर

5/6/17 पत्रावली पेश हुई। बकूलाय उपस्थित।
 SDO Sb.....~~उपस्थित~~.....श्रीने के
 कारण पत्रावली वास्ते.....~~उपस्थित~~.....हेतु
 दिनांक...~~7/2/17~~...को पेश हों।
 रीडर

7/7/17 पत्रावली पेश हुई। बकूलाय उपस्थित।
 SDO Sb.....~~उपस्थित~~.....श्रीने के
 कारण पत्रावली वास्ते.....~~उपस्थित~~.....हेतु
 दिनांक...~~2.8/8/17~~...को पेश हों।
 रीडर

28/8/17 पत्रावली पेश हुई। बकूल.....वकील फरीकन
 उपस्थित !.....~~उपस्थित~~.....हेतु समय बाड़ा! समय
 दिया जाकर पत्रावली वास्ते.....~~उपस्थित~~.....
 आयन्त दिनांक...~~27/9/17~~...को पेश हों।

27/9/17 पत्रावली पेश हुई। बकूल.....वकील फरीकन
 उपस्थित !.....~~उपस्थित~~.....हेतु समय बाड़ा! समय
 दिया जाकर पत्रावली वास्ते.....~~उपस्थित~~.....
 आयन्त दिनांक...~~20/10/17~~...को पेश हों।

30/10/17 पत्रावली पेश हुई। बकूल.....वकील फरीकन
 उपस्थित !.....~~उपस्थित~~.....हेतु समय बाड़ा! समय
 दिया जाकर पत्रावली वास्ते.....~~उपस्थित~~.....
 आयन्त दिनांक...~~13/12/17~~...को पेश हों।

13/12/17 पत्रावली पेश हुई। 19 दिनांक उपस्थित।
 श्रीने उपस्थित।
 15/12/17 का उपस्थित दिनांक 23/3/18 को दिनांक
 वकील को दिनांक 23/3/18 को दिनांक
 23/1/18 को पेश हों।
 रीडर

30/10

पत्रावली पेश हुई! फरमा
 उपस्थित !
 दिया जाकर
 आयन्क दिनांक का पेश हों।

व. 218 पत्रावली उद्धृत हुई उत्तर पक्ष द्वारा
 प्रतिवादी द्वारा उद्धृत उर्ध्वना पत्र पर
 बहस सुनी गई। बहस के दौरान
 प्रतिवादी ने मृत्यु प्रमाण पत्र प्रारम्भ
 हुए नूतनराम (प्रतिकी क. 2) का उद्धृत
 क्र. 2 विवेक मित्रा के प्रतिवादी
 की मृत्यु दिनांक 14.6.2004
 को जवाब उद्धृत मृत्यु की दिनांक
 31.5.13 से पूर्व हो चुकी थी।
 इस वर्ष पूर्व दस्त व्याप्त नूतनराम
 का उद्धृत प्रारम्भ पत्रों से
 उद्धृत विवेक के आधार पर वाद
 इसी प्रकार प्रारम्भ मित्रा जहाँ से
 प्रमाण के लिये भूमा दामल के
 समर्थन विवेक प्रमाण पत्र

Handwritten signature and date at the bottom right corner.